

प्रेस नोट दिनांक-12.06.2021

(1). आज दिनांक 12.06.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल द्वारा ग्राम पंचायत सदस्यों के रिक्त पदों के लिये कराये जा रहे चुनाव के दृष्टिगत मतदान केन्द्र बनाड़ी में जाकर बूथ का निरीक्षण किया गया। इस दौरान डियूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को शांति पूर्वक मतदान करवाने हेतु एवं सतर्कता से डियूटी करने हेतु निर्देशित किया गया।

इस दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी, पीआरओ श्री दिनेश कुमार सिंह तथा अन्य अधिकारी कर्मचारीगण साथ में रहे।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री फिरोज खान तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त 1. शिवकुमार यादव पुत्र समयलाल निवासी ऊंचाडीह थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट 2. कृष्णा यादव पुत्र रामराज यादव निवासी पनहट थाना अतरौला जनपद रीवा म0प्र0 को 06 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरणों एवं 80 किलो लहन के साथ गिरफ्तार किया गया तथा बरामदशुदा लहन को मौके पर नष्ट किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

06 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण व 80 किलो लहन

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री फिरोज खान थाना मानिकपुर
2. आरक्षी पंजक कुमार
3. आरक्षी रविन्द्र

(3). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 12.06.2021 को एंटी रोमियो स्क्वाड मानिकपुर द्वारा इंदिरा नगर, वाल्मीकि नगर पश्चिमी में, एंटी रोमियोटीम थाना मारकुण्डी द्वारा ग्राम भेड़ा व मारकुण्डी में, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा ग्राम कलचिहा, जमीरा कालोनी व कोलमजरा में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा कर्वी शहर के पुरानी कोतवाली चौराहा, धुस मैदान, भैरोपागा में भ्रमण कर, महिलाओं/ बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया। सभी से अपील की कोई भी अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर न निकलें/घूमें कोरोना वायरस से अपने व अपने परिवार को बचाये। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया।

(4). आज दिनांक 12.06.2021 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री शैलेन्द्र कुमार राय द्वारा ग्राम पंचायत सदस्यों के रिक्त पदों के लिये कराये जा रहे मतदान के दृष्टिगत थाना राजापुर क्षेत्र के ग्राम भदेदू एवं थाना भरतकूप क्षेत्र के ग्राम बंदरी में मतदान केन्द्र जाकर बूथ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डियूटी में लगे पुलिस बल को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए सतर्कता पूर्वक डियूटी करने हेतु निर्देश दिये गये।

इस दौरान उपजिलाधिकारी राजापुर, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री एस0पी0 सोनकर, प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री संजय कुमार उपाध्याय तथा अन्य अधिकारी कर्मचारीगण साथ में रहे।

(5). आज दिनांक-12.06.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएमान रखने हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में टीएसआई श्री योगेश कुमार द्वारा ट्राफिक चौराहा एवं बेड़ी पुलिया

चौराहा कर्वी में 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी । चेकिंग के दौरान बिना नम्बर प्लेट भारी वाहन, बिना हेल्मेट/सीट बेल्ट, 03 सवारी, बिना मास्क व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग कर टीएसआई श्री योगेश कुमार द्वारा समस्त वाहन चालकों एवं जनता से कोरोना वायरस के दृष्टिगत लागू वीकेण्ड कोरोना कर्फ्यू का पूर्णतयः पालन करने एवं अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने हेतु बताया तथा आवश्यक कार्य से बाहर निकलने पर मास्क लगाने हेतु जागरूक किया । उ0नि0 यातायात द्वारा समस्त वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर सभी से हेल्मेट/सीट बेल्ट लगाने एवं यातायात नियमों का पालन करने हेतु बताया गया । बिना हेल्मेट/सीट बेल्ट 49 वाहनों से 76500 रूपये पेन्डिंग ई चालान किया गया तथा बिना मास्क 26 व्यक्तियों से 7800 रूपये जुर्माना वसूला गया ।